



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 श्रावण 1940 (श10)
(सं0 पटना 781) पटना, सोमवार, 20 अगस्त 2018

पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना

19 मार्च 2018

सं० प्र०-7/नियम-3/2017-2183(s)-संविधान के अनुच्छेद-166 (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता भाग-1 (1958) (समय-समय पर यथा संशोधित) में निम्नलिखित संशोधन तुरंत के प्रभाव से करते हैं :-

1. उक्त संहिता के नियम 292 का उपनियम xii तथा नियम 293 का उपनियम xi क्रमशः निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:-

शक्तियों का स्वरूप	शक्तियों की सीमा	अभ्युक्ति
292 XII - भवनों का उद्भव लोक निधि से निर्मित सरकारी भवनों और निरीक्षण बंगलों के ध्वंश/निबटाव की मंजूरी देना।	निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए पूर्ण शक्ति :- (1) कोई भवन तब तक ध्वस्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह खतरनाक हालत में न हो या मरम्मत के लायक न हो। (i) यह शक्ति वैसे मामलों में भी लागू होगी, जिसमें एक ही अहाता में स्थित अनेक अलग-अलग भवनों को उद्भवस्त करने की बात हो, जिसका कुल खर्च यथा मूल्यांकन किया गया हो। (ii) जब किसी भवन का एक हिस्सा उद्भवस्त करने हेतु प्रस्तावित हो तो पूरे भवन के मूल्य को ध्यान में रखा जायेगा न कि केवल उद्भवस्त होने वाले हिस्से का। (iii) कार्य, निविदा के माध्यम से निष्पादित किया जायेगा।	मुख्य अभियंता

शक्तियों का स्वरूप	शक्तियों की सीमा	अभ्युक्ति
293 XI - भवनों का उद्धवश लोक निधि से निर्मित सरकारी भवनों और निरीक्षण बंगलों के ध्वंश/निबटाव की मंजूरी देना।	निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए ₹70.00 लाख के मूल्य तक :- (1) कोई भवन तब तक ध्वस्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह खतरनाक हालत में न हो या मरम्मत के लायक न हो। (2) यह शक्ति वैसे मामलों में लागू न होगी, जिसमें एक ही अहाते में स्थित, कुल ₹70.00 लाख से ऊपर की लागत वाले अनेक अलग-अलग भवनों को उद्धवस्त करना प्रस्तावित हो। (3) जब किसी भवन का एक हिस्सा उद्धवस्त करने हेतु प्रस्तावित हो तब पूरे भवनों के मूल्य को ध्यान में रखा जायेगा, न कि केवल उद्धवस्त होने वाले हिस्से का। (4) कार्य, निविदा के माध्यम से निष्पादित किया जायेगा।	अधीक्षण अभियंता

2. उक्त संहिता के नियम 294 के उपनियम ix के खण्ड (xvii) के बाद निम्नलिखित नया खण्ड (xviii) जोड़ा जाता है :-

शक्तियों का स्वरूप	शक्तियों की सीमा	अभ्युक्ति
294 IX(xviii) - भवनों का उद्धवश लोक निधि से निर्मित सरकारी भवनों और निरीक्षण बंगलों के ध्वंश/निबटाव की मंजूरी देना।	निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए ₹3.50 लाख के मूल्य तक :- (1) कोई भवन तब तक ध्वस्त न किया जाय जब तक कि वह खतरनाक हालत में न हो या मरम्मत के लायक न हो। (2) यह शक्ति वैसे मामले में लागू न होगी, जिसमें एक ही अहाते में स्थित कुल ₹3.50 लाख से ऊपर की लागत वाले अनेक अलग-अलग भवनों को उद्धवस्त करना प्रस्तावित हो। (3) जब किसी भवन का एक हिस्सा उद्धवस्त करने हेतु प्रस्तावित हो तब पूरे भवन के मूल्य को ध्यान में रखा जायेगा, न कि केवल उद्धवस्त होने वाले हिस्से का। (4) कार्य, निविदा के माध्यम से निष्पादित किया जायेगा।	कार्यपालक अभियंता

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
आलोक कुमार,
संयुक्त सचिव (प्र0को0)।

The 19th March 2018

No. Pra. 07/Niyam-03/2017-2183(s) —In exercise of the powers conferred under Article 166 (3) of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following amendments in the Bihar Public Works Department Code, Volume-1(1958) (as amended from time to time) with immediate effect :-

1. Subrule xii of rule 292 and Subrule xi of rule 293 of the said code is substituted by the following respectively :-

Nature of powers	Limit of Powers	Remarks
292 XII - Dismantlement of Buildings To Sanction demolition/ disposal of Public Building and inspection bungalows Constructed from Public funds.	Full Power subject to the following restrictions :- (1) No building shall be demolished unless it is in dangerous condition or repairable. (i) This Power shall apply to such cases in which the dismantlement of several individual buildings situated in a compound, the total cost of which is as evaluated.	Chief Engineer.

Nature of powers	Limit of Powers	Remarks
	(ii) When it is proposed to dismantle a portion of the building, the value of the entire building should be taken into consideration, not the portion to be dismantled only. (iii) The work shall be executed through tender.	
293 XI - Dismantlement of Buildings To Sanction demolition/ disposal of Public Building and inspection bungalows Constructed from Public funds.	Up to ₹70.00 Lakh subject to the following restrictions :- (1) No building shall be demolished unless it is in dangerous condition or repairable. (2) This Power shall not apply to such cases in which the dismantlement of several individual buildings situated in a compound the total cost of which exceeds ₹70.00 Lakh. (3) When it is proposed to dismantle a portion of the building, the value of the entire building should be taken into consideration, not the portion to be dismantled only. (4) The work shall be executed through tender.	Superintending Engineer.

2. The following new clause (xviii) shall be added after clause (xvii) of subrule ix of rule 294 of the said code :-

Nature of powers	Limit of Powers	Remarks
294 IX (xviii) Dismantlement of Buildings To Sanction demolition/ disposal of Public Building and inspection bungalows Constructed from Public funds.	Up to 3.5 Lakh subject to the following restrictions :- (1) No building shall be demolished unless it is in dangerous condition or repairable. (2) This Power shall not apply to such cases in which the dismantlement of several individual buildings situated in a compound the total cost of which exceeds Rs. 3.5 Lakh. (3) When it is proposed to dismantle a portion of the building, the value of the entire building should be taken into consideration, not the portion to be dismantled only. (4) The work shall be executed through tender.	Executive Engineer

By order of the Governor of Bihar,
ALOK KUMAR,
Joint Secretary(Management Cell).

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 781-571+1000-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>